

तुरंत रिलीज के लिए

## सिटी ऑफ ब्रैम्पटन जून में वर्चुअल तौर पर प्राइड का जशन मना रही है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (1 जून, 2021) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन इस वर्ष ऑनलाइन कार्यक्रमों, तंदरुस्ती वाली गतिविधियों और परफॉर्मेंस के साथ प्राइड (Pride) का जशन वर्चुअल (आभासी) तौर पर मना रही है, जिससे ऐसी सुरक्षित जगह बनाई जा सके, जहां LGBTQ2SA कम्युनिटी अपने विविध विचारों और कहानियों को पहचान दे पाए और उन्हें साझा कर पाए।

प्राइड के जशन, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मान्यताप्राप्त आंदोलन हैं, जो हमदर्दी और दया का जशन मनाते हैं। ब्रैम्पटन में आयोजित किए जाने वाले प्राइड के कार्यक्रम, विविध समूहों को शामिल कर उनसे बातचीत करके, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की हिमायत करके, पूरी सिटी में मौजूद विविधता और भागीदारी के लिए फ्रेमवर्क विकसित करके, हमारे मौजैक का जशन मनाते हैं। इस वर्ष के प्राइड वीक (Pride Week) की झलकियों में शामिल हैं:

- 1 जून को ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown) के साथ झंडा लहराने की वर्चुअल रस्म
- 6 जून को, शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक, टोरोंटो की इथियोपियन/ऐरीटीन, गायिका-गीतकार अइयो लीलानी (Ayo Leilani) के साथ, विच प्रोफेट (Witch Prophet) के द्वारा परफॉर्मेंस
- 7 से 11 जून तक मोइयो हेल्थ एंड कम्युनिटी सर्विसिज (Moyo Health and Community Services), लंच एंड लर्न प्रोग्रामों की सीरीज का आयोजन करेगी, जो दोपहर से शुरू होंगे
- 7 जून को रात 8 बजे से 9 बजे तक, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन रेक्रिएशन (City of Brampton Recreation) के साथ एक घंटे का योगा और मेडिटेशन
- 8 जून को रात 8 बजे अल्गोमा यूनिवर्सिटी (Algoma University) पैनल चर्चा का आयोजन करेगी
- 12 जून को रात 8 बजे, ब्रैम्पटन परफॉर्मिंग आर्ट्स (Brampton Performing Arts) के द्वारा तैयार की गई परफॉर्मेंस पेश की जाएंगी

### **प्राइड इन द सक्वेयर**

13 जून को, टी.डी. (TD) द्वारा पेश किए जाने वाले प्राइड इन द सक्वेयर (Pride in the Square) में पूरा दिन, पारिवारिक वर्चुअल गतिविधियां होंगी। इनकी शुरुआत सुबह 11 बजे फे एंड फ्लफी (Fay & Fluffy) की कहानी सुनाने से होगी; शाम 6 बजे सिटी ऑफ ब्रैम्पटन रेक्रिएशन द्वारा आयोजित, लाउड एंड प्राउड (Loud & Proud) फिटनेस डांस; शाम 7 बजे क्वीरासिटी (Queeriahcity): मैंगो लस्सी, उर्वा खान (Urvah Khan), कुरत दार (Qurat Dar), अल्मासी (Almasi) और सार्गोन (Sargon) के साथ खास प्रेजेंटेशन। रात 8:30 बजे, मिकाह बार्नेस (Micah Barnes) के द्वारा लाइव परफॉर्मेंस पेश की जाएगी।

हिस्सा लेने के लिए, [प्राइड इन द सक्वेयर \(Pride in the Square\)](#) पर जाएं।

प्राइड इन ब्रैम्पटन (Pride in Brampton) को उदारतापूर्वक, टी.डी. के द्वारा प्रायोजित किया गया है। प्राइड वीक के लिए तैयार की गई गतिविधियों की पूरी सूची के लिए, [www.brampton.ca/pride](http://www.brampton.ca/pride) पर जाएं।

**हवाले**

“प्राइड के कार्यक्रम, LGBTQ+ कम्युनिटी को अपने विविध विचारों और कहानियों का जशन मनाने और साझा करने के लिए सशक्त करते हैं और निवासियों को कम्युनिटी के अंदर के कई चेहरों और विशेषताओं के बारे में जानकारी देते हैं। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन एक मोजैक है, जो विविधता का जशन मनाता है और प्राइड जैसे जशनों के द्वारा निवासी, एकता, ताकत और भागीदारी को महसूस कर सकते हैं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, हमारी सभी सेवाओं और प्रोग्रामों में भागीदारी के दृष्टिकोण के द्वारा अपनी विविध कम्युनिटीज को मान्यता देने और मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी डायवर्सिटी एंड इन्क्लूजन स्ट्रैटजी के द्वारा, हमारा ध्यान कम्युनिटी के विविध कार्यबल संबंधी चिंतन की ओर ध्यान खींचने और इसमें वृद्धि करने पर केंद्रित है।”

- डेविड बैरिक् (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

**मीडिया संपर्क**

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोआर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)